



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1641]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2015/श्रावण 15, 1937

No. 1641]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2015/SHRAVANA 15, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2015

**का.आ. 2130(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ पंद्रहवां संशोधन नियम, 2015 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—  
(क) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक, "ग. औषध विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 1 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—  
"1क. चिकित्सीय युक्तियां—संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक मुद्दे;  
सिवाए उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से अन्य विभागों को आवंटित किए हों।";  
(ख) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक, "क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 12 की, मद (झ) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—  
"(ज). विनियामक पहलू, अर्थात्, चिकित्सीय युक्तियों की क्वालिटी, सुरक्षा, लेबल लगाना और निष्पादन।"।

प्रणव मुखर्जी  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/5/2012-मंत्रि.]  
दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5<sup>th</sup> August, 2015

**S.O. 2130(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifteenth Amendment Rules, 2015.  
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,-
  - (a) under the heading “MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS (AUSHADH VIBHAG)”, after entry 1, the following entry shall be inserted, namely:—
    - “1A. Medical Devices – Industry issues relating to promotion, production and manufacture; excluding those specifically allotted to other Departments.”;
  - (b) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN VIBHAG)”, in entry 12, after item (i), the following item shall be inserted, namely:—
    - “(j). Regulatory aspects namely quality, safety, labelling and performance of medical devices.”.

PRANAB MUKHERJEE  
President

[F. No. 1/21/5/2012-Cab.]  
DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.